

पाठ 13 समास

पेज नंबर 82

प्रश्न 2. दिए गए वाक्यों में (गहरे शब्द) समस्त पदों का विग्रह करें और समास का नाम लिखें।

- क) प्रतिवर्ष राधिका ही कक्षा में प्रथम आती है।
समास विग्रह - हर वर्ष समास का नाम (अव्ययीभाव समास)
- ख) मोहन को मनचाहा पद मिल गया।
समास विग्रह- मन से चाहा समास का नाम (तत्पुरुष समास)
- ग) प्रधानमंत्री ने अपने यहां जनता दरबार लगाया।
समास विग्रह - प्रधान है जो मंत्री समास का नाम (कर्मधारय समास)
- घ) तिरंगा प्रत्येक भारतवासी की आन-मान-शान है।
समास विग्रह- तीन रंगों का समूह समास का नाम (द्विगु समास)
- ङ) विद्यार्थियों को रात-दिन परिश्रम करना चाहिए।
समास विग्रह - रात और दिन समास का नाम (द्वंद्व समास)

3. निम्नलिखित समस्त पदों का विग्रह कर समास का नाम लिखें-

समस्त पद	समास विग्रह	समास का नाम
क) बातोंबात	बात ही बात में	अव्ययीभाव समास
ख) वनगमन	वन को गमन	करण तत्पुरुष समास
ग) रोगमुक्त	रोग से मुक्त	अपादान तत्पुरुष समास
घ) सप्ताह	सात दिनों का समूह	द्विगु समास
ङ) महापुरुष	महान है जो पुरुष	कर्मधारय समास
च) घनश्याम	घन के समान श्याम	कर्मधारय समास
छ) माता-पिता	माता और पिता	द्वंद्व समास
ज) राजा-रंक	राजा और रंक	द्वंद्व समास
झ) नीलकंठ	नीला है जिसका कंठ (शिव)	बहुव्रीहि समास
ञ) कमलनयन	कमल के समान नयन	कर्मधारय समास

4. समस्त पद बनाकर समास का नाम लिखें-

- क) शक्ति के अनुसार यथाशक्ति (अव्ययीभाव समास)
- ख) नीला है जो अंबर नीलांबर (कर्मधारय समास)
- ग) हाथ ही हाथ में हाथोंहाथ (अव्ययीभाव समास)
- घ) नौ रत्नों का समूह नवरत्न (द्विगु समास)
- ङ) यज्ञ के लिए शाला यज्ञशाला (संप्रदान तत्पुरुष समास)
- च) भला या बुरा भला-बुरा (द्वंद्व समास)

- छ) गंगा का जल गंगाजल (संबंध तत्पुरुष)
- ज) चार भुजाओं वाला अर्थात विष्णु चतुर्भुज (बहुव्रीहि समास)
- झ) वीर है जो पुरुष वीरपुरुष (कर्मधारय समास)
- ञ) सत् है जो धर्म सद्धर्म (कर्मधारय समास)
-